

# आवेदन के लिए निमंत्रण

महान (चेंज मेकर्स/ बदलाव निर्माता) अपनी युवावस्था में शुरुआत करते हैं।

यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं और आपने युवावस्था में कदम रखा है - तो दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक उद्यमियों के नेटवर्क अशोका में शामिल हो जाइए।

अशोका युवा उद्यम उन किशोरों की पहचान और समर्थन करता है जिन्होंने सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए अपनी पहल शुरू की है। अशोका युवा उद्यमी बनना आपकी और आपके काम की एक पहचान है. चयनित युवा उद्यमियों को वर्ल्ड कम्युनिटी में शामिल किया जाता है, उनको और उनकी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यशालाओं, रणनीतिक परामर्श, धन उगाहने के समर्थन/ फण्डरेसिंग, मीडिया साझेदारी, एक्सपोजर विज़िट और ऐसे कई अधिक अवसर उनको मिलते हैं।

अगस्त में होने वाले युवा उद्यम भारत के 9वें चयन पैनल के लिए आवेदन शुरू हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका में आगामी पैनलों के लिए, आवेदन जल्द ही शुरू होंगे।

## कौन आवेदन कर सकता है?

एक युवा उद्यमी उम्मीदवार:

- जिनकी उम्र 12 से 20 वर्ष के बीच है (वर्ष के 31 दिसंबर तक, जिसमें वे आवेदन कर रहे हैं)
- जिनके पास सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक नया विचार है
- जिन्होंने एक टीम बनाई हुई है
- जिन्होंने इस विचार को लागू किया है और अपने समुदायों को प्रभावित किया है
- जिनके पास ज़बरदस्त प्रभाव के लिए एक कार्य योजना है

सफल उम्मीदवार वे हैं, जिन्होंने अपनी पहलों के माध्यम से, चेंज मेकर/ बदलाव निर्माता के लिए आवश्यक कौशल की निपुणता जैसे सहानुभूति, रचनात्मक समस्या को हल करना, टीमवर्क और सहयोगी नेतृत्व को प्रदर्शित किया है। वयस्क सलाहकार मिलने से अलग से फायदा तो होता है, लेकिन पहलों को किशोरों द्वारा ही बनाया, नेतृत्व और प्रबंधित किया जाता है।

## आवेदन कैसे करें?

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में है:

- **ऑनलाइन आवेदन जमा करना :**

यदि महत्वाकांक्षी युवा उद्यमी चयन मानदंडों पर सही बैठता है, तो उसे स्वयं नामांकन फॉर्म भरना होगा. शिक्षक, माता-पिता या अन्य व्यक्ति नामांकन फॉर्म के माध्यम से एक परियोजना / पहल को नामांकित कर सकते हैं. चयन पैनल एक वर्ष में तीन बार आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक पैनल के लिए पैनल की तारीख से एक महीने पहले आवेदन किया जाता है। आने वाले अगस्त चयन पैनल के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2018 है।

- खुद को नामांकित कीजिये
- किसी को नामांकित कीजिये

- **समीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग**

अशोका टीम उम्मीदवारों की समीक्षा और उनको शॉर्टलिस्ट करेगी. इसमें टेलीफोनिक साक्षात्कार, रेफरेन्सेस और फ़ील्ड विज़िट भी शामिल हो सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवारों से टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा और आगे के बारे में सूचित किया जाएगा।

- **चयन पैनल**

चयनित उम्मीदवारों को चयन पैनल में आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए हमारे बेंगलूर कार्यालय में दो दिन का आयोजन किया जाता है, जहां वे अग्रणी सामाजिक उद्यमियों और वैचारिक नेताओं के पैनल के सामने अपनी पहल पेश करते हैं. पैनल की सिफारिश पर, उम्मीदवारों को 'अशोका युवा उद्यमियों' के रूप में निर्वाचित किया जाएगा।

## चयन के बाद क्या होगा?

युवा उद्यम एक पुरस्कार और एक फैलोशिप दोनों हैं। शामिल होने के बाद आप इंडक्शन के पहले वर्ष में 3-4 दिनों की तिमाही-वार्षिक कार्यशालाओं के लिए हमसे जुड़ते हैं। आप एक सलाहकार से जुड़े रहेंगे, जो आपका पहले वर्ष में मार्गदर्शन करेंगे। आपके सलाहकार के साथ आपकी व्यस्तताएं आपकी व्यक्तिगत चेंजमेकर/बदलाव निर्माता यात्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। आपको कई स्पीकिंग प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर ईवेंट में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। सभी काम आपके स्कूल / विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के साथ मिलकर होते हैं। कार्यक्रम की जल्दी से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप YP पत्रिका पढ़ सकते हैं।

## **खर्चों के बारे में क्या? / कितना खर्चा आ जाएगा?**

अशोका, चयन पैनल के लिए, कार्यशालाओं के लिए यात्रा, आवास और भोजन, और किसी काम जिसके लिए आपको यात्रा करने या अपने गृह नगर के बाहर रहने की आवश्यकता होती है, इन सभी के लिए खर्च उठाता है। टीम समय-समय पर आपको सही जानकारी देती रहेगी कि कौनसे भुगतान अशोका द्वारा सीधे किए जाने वाले हैं और कौनसे मूल बिलों के जमा कराने के बाद लौटा दिए जायेंगे।

## **मुझे और जानकारी चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए?**

हमें आपको जानकारी देकर बहुत खुशी मिलेगी!

**आप ई-मेल कर सकते हैं:** दिव्यदर्शन (dchandrasedkar@ashoka.org); राघव खेमका (rkhemka@ashoka.org)

**कॉल कर सकते हैं:** 080 4274 5777

**व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं:** 54, पहला क्रॉस, डोमलर लेआउट, बेंगलूर 560071